



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

31 जनवरी 2025

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – दिसंबर 2024

दिसंबर 2024¹ महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, [विवरण I और II](#) में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण² 27 दिसंबर 2024³ को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 12.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े (29 दिसंबर 2023) में यह 15.8 प्रतिशत था।

बैंक ऋण³ के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में 27 दिसंबर 2024 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 12.5 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि दर्ज की गई (पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में 19.4 प्रतिशत)।
- उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में 27 दिसंबर 2024 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 7.4 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में यह 7.5 प्रतिशत थी। प्रमुख उद्योगों में, 'खाद्य प्रसंस्करण', 'पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं परमाणु ईंधन', और 'सभी अभियांत्रिकी' को बकाया ऋण में उच्च वृद्धि हुई। तथापि, 'आधारभूत संरचना' खंड में ऋण वृद्धि में कमी आई।
- सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में वृद्धि 27 दिसंबर 2024 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार घटकर 13.0 प्रतिशत (व-द-व) हो गई (पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में 20.0 प्रतिशत), जो मुख्य रूप से 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' और 'व्यापार' खंड हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि के कम होने के कारण थी। तथापि, 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर' और 'पेशेवर सेवाओं' की ऋण वृद्धि (व-द-व) में तेजी आई।
- वैयक्तिक ऋण खंड हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि 27 दिसंबर 2024 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार घटकर 14.9 प्रतिशत (व-द-व) हो गई, जबकि पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में यह 17.6 प्रतिशत थी, जो मुख्यतः 'अन्य वैयक्तिक ऋणों', 'वाहन ऋणों' एवं 'क्रेडिट कार्ड बकाया' की वृद्धि में कमी आने के कारण थी। तथापि, 'आवास' – इस खंड का सबसे बड़ा घटक – में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर तेज वृद्धि हुई।

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2053

अजीत प्रसाद
उप महाप्रबंधक (संचार)

¹ आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

² खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा-42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

³ बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।